



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 2010/माघ 21, 1931

No. 260]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2010/MAGHA 21, 1931

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2010

**का.आ. 302(अ).**—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 436(अ), तारीख 10 फरवरी, 2009 से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के जिला अलीगढ़ में विशेष रेल परियोजना ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों 'दैनिक जागरण' और 'अमर उजाला' में तारीख 6 मार्च, 2009 को प्रकाशित किया गया था;

और, बारह आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया तथा अननुज्ञात किया गया और तदनुसार आदेश पारित किए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्ण रूप से सभी विल्लंगों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

## अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अलीगढ़ जिले के भीतर की अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

क्रम सं.	तालुक का नाम	गाँव का नाम	गाटा / सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	नू स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	काल	1. दौलताबाद	निजी	कृषि	116	0.0740	अशोक कुमार पुत्र प्रकाश चन्द्र, अमित प्रकाश पुत्र चन्द्रशेखर, राजकुमारी पत्नी अशोक कुमार, रामदेवी पत्नी पत्नी प्रकाश चन्द्र, राजेश कुमारी पत्नी चन्द्र शेखर, चन्द्र शेखर पुत्र कालीचरन
			निजी	कृषि	115	0.1270	अशोक कुमार पुत्र प्रकाश चन्द्र, अमित प्रकाश पुत्र चन्द्रशेखर, राजकुमारी पत्नी अशोक कुमार, रामदेवी पत्नी पत्नी प्रकाश चन्द्र, राजेश कुमारी पत्नी चन्द्र शेखर, चन्द्र शेखर पुत्र कालीचरन
			निजी	कृषि	148	0.1660	अशोक कुमार पुत्र प्रकाश चन्द्र, अमित प्रकाश पुत्र चन्द्रशेखर, राजकुमारी पत्नी अशोक कुमार, रामदेवी पत्नी पत्नी प्रकाश चन्द्र, राजेश कुमारी पत्नी चन्द्र शेखर, चन्द्र शेखर पुत्र कालीचरन
			निजी	कृषि	147	0.2300	अशोक कुमार पुत्र प्रकाश चन्द्र, अमित प्रकाश पुत्र चन्द्रशेखर, राजकुमारी पत्नी अशोक कुमार, रामदेवी पत्नी पत्नी प्रकाश चन्द्र, राजेश कुमारी पत्नी चन्द्र शेखर, चन्द्र शेखर पुत्र कालीचरन
			निजी	कृषि	152	0.2070	अशोक कुमार पुत्र प्रकाश चन्द्र, अमित प्रकाश पुत्र चन्द्रशेखर, राजकुमारी पत्नी अशोक कुमार, रामदेवी पत्नी पत्नी प्रकाश चन्द्र, राजेश कुमारी पत्नी चन्द्र शेखर, चन्द्र शेखर पुत्र कालीचरन
			निजी	कृषि	150	0.0230	अशोक कुमार पुत्र प्रकाश चन्द्र, अमित प्रकाश पुत्र चन्द्रशेखर, राजकुमारी पत्नी अशोक कुमार, रामदेवी पत्नी पत्नी प्रकाश चन्द्र, राजेश कुमारी पत्नी चन्द्र शेखर, चन्द्र शेखर पुत्र कालीचरन
			निजी	कृषि	151	0.1040	अशोक कुमार पुत्र प्रकाश चन्द्र, अमित प्रकाश पुत्र चन्द्रशेखर, राजकुमारी पत्नी अशोक कुमार, रामदेवी पत्नी पत्नी प्रकाश चन्द्र, राजेश कुमारी पत्नी चन्द्र शेखर, चन्द्र शेखर पुत्र कालीचरन
			निजी	कृषि	153	0.1500	अशोक कुमार पुत्र प्रकाश चन्द्र, अमित प्रकाश पुत्र चन्द्रशेखर, राजकुमारी पत्नी अशोक कुमार, रामदेवी पत्नी पत्नी प्रकाश चन्द्र, राजेश कुमारी पत्नी चन्द्र शेखर, चन्द्र शेखर पुत्र कालीचरन
			निजी	कृषि	154	0.1700	अशोक कुमार पुत्र प्रकाश चन्द्र, अमित प्रकाश पुत्र चन्द्रशेखर, राजकुमारी पत्नी अशोक कुमार, रामदेवी पत्नी पत्नी प्रकाश चन्द्र, राजेश कुमारी पत्नी चन्द्र शेखर, चन्द्र शेखर पुत्र कालीचरन
			निजी	कृषि	156	0.0970	अशोक कुमार पुत्र प्रकाश चन्द्र, अमित प्रकाश पुत्र चन्द्रशेखर, राजकुमारी पत्नी अशोक कुमार, रामदेवी पत्नी पत्नी प्रकाश चन्द्र, राजेश कुमारी पत्नी चन्द्र शेखर, चन्द्र शेखर पुत्र कालीचरन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			निजी	कृषि	155	0.6640	अशोक कुमार पुत्र प्रकाश चन्द्र, अमित प्रकाश पुत्र चन्द्रशेखर, राजकुमारी पत्नी अशोक कुमार, रामदेवी पत्नी पत्नी प्रकाश चन्द्र, राजेश कुमारी पत्नी चन्द्र शेखर, चन्द्र शेखर पुत्र कालीचरन
			निजी	कृषि	149	0.0120	तारादेवी पत्नी कालीचरन, अशोक कुमार पुत्र प्रकाश चन्द्र, अमित प्रकाश पुत्र चन्द्रशेखर, राजकुमारी पत्नी अशोक कुमार, रामदेवी पत्नी पत्नी प्रकाश चन्द्र, राजेश कुमारी पत्नी चन्द्र शेखर, चन्द्र शेखर पुत्र कालीचरन
			निजी	कृषि	117	0.2070	ख्वाजा मोहम्मद शाहिद
			निजी	कृषि	118	0.1450	ख्वाजा मोहम्मद शाहिद
			निजी	कृषि	145	0.1270	ख्वाजा मोहम्मद शाहिद
			निजी	कृषि	146	0.0690	ख्वाजा मोहम्मद शाहिद
			निजी	कृषि	119	0.0230	ख्वाजा मोहम्मद शाहिद
		2. मुल्ला पाड़ा भुजपुरा	निजी	कृषि	139	0.3000	राजेन्द्र सिंह पुत्र उपराव सिंह, रामचन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह
			निजी	कृषि	140	0.0080	देवीराम पुत्र खुमानी, शिव कुमार उर्फ छोटेलाल, दीपक ना. 17 वर्ष पुत्रगण कृष्णगोपाल संरक्षिका माता ओमवती देवी, ओमवती देवी पत्नी कृष्ण गोपाल, कैलाश चन्द्र, छोटेलाल, गांधी पुत्रगण हरधरन दास, कमलस देवी पत्नी हरचरन दास, दुर्जन सिंह पुत्र देशराज सिंह, बादामी देवी पत्नी देशराज सिंह
			निजी	कृषि	149	1.8740	कृष्णलाल, विजय कुमार पुत्रगण रामस्वरूप, पुष्पा देवी पत्नी राम स्वरूप, तेज सिंह, हीरालाल पुत्रगण सोना, चन्द्रपाल सिंह, गजाधर सिंह, विजय कुमार, निरंजन सिंह पुत्रगण रामकिशोर, राम देवी पत्नी भूपाली, सुनहरा पुत्र हरपाल सिंह, जयपाल सिंह पुत्र दानसहाय, ललिता देवी पत्नी ओम प्रकाश
			निजी	कृषि	150	0.6960	रामचन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह
			निजी	कृषि	157	0.2490	हीरा सिंह, राम प्रसाद पुत्रगण मुखराम, अशोक, गोपाल ना. 15 वर्ष पुत्रगण राजपाल सिंह संरक्षिका माता रूमाली देवी, रूमाली देवी पत्नी राजपाल सिंह
			निजी	कृषि	158	0.0450	राम स्वरूप, बृजेश पुत्रगण अता
			निजी	कृषि	159	0.3180	कुवरपाल सिंह पुत्र नन्मल, राजेन्द्र, तारा चन्द्र, गगन पुत्रगण रामचरन, माया देवी पत्नी रामचरन
			निजी	कृषि	161	0.4380	गिराज किशोर, ललित किशोर, राम कुमार, प्रदीप कुमार, अनिल कुमार पुत्रगण बाबूलाल, दुर्गपाल सिंह पुत्र वीरेन्द्रपाल सिंह
			निजी	कृषि	162	0.5090	भरत सिंह, महीपाल सिंह, राजवीर सिंह, सोरन सिंह पुत्रगण मुंशी सिंह, रानी देवी पत्नी नरेन्द्र सिंह सैनी, धनदकान्ता देवी पत्नी घेतन सिंह सैनी, दीपा देवी पत्नी जसवन्त सिंह सैनी
			निजी	कृषि	168	0.2100	हेमलता देवी पत्नी भोला सिंह
			निजी	कृषि	169	0.3000	भीकमपाल सिंह, नरेन्द्रपाल सिंह, सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्रगण राम सिंह, दुर्गपाल सिंह पुत्र वीरेन्द्रपाल सिंह
			निजी	कृषि	171	0.5240	ऋषिपाल सिंह, मुन्नीपाल सिंह, कुसुमपाल सिंह पुत्रगण रामचन्द्र सिंह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			निजी	कृषि	181	1.4020	कदारनाथ सारस्वत पुत्र नित्यानन्द सारस्वत, सतीश कुमार पुत्र सत्यपाल, अमित कुमार, सुमित कुमार पुत्रगण चन्द्रशेखर, नरेन्द्र कुमार पुत्र, रामकिशन, सुभाष चन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद, रामदेवी पत्नी प्रकाश चन्द्र, नितिन गर्ग पुत्र पवन गर्ग, विजय माहेश्वरी पुत्र अशोक कुमार माहेश्वरी, सतीश चन्द्र गर्ग एच.यू.एफ. पुत्र प्रभूलाल गर्ग, मनीश कुमार गर्ग पुत्र सतीश चन्द्र गर्ग, नील गर्ग पुत्र मनीश कुमार गर्ग, अंकुर माहेश्वरी पुत्र अशोक कुमार माहेश्वरी
			निजी	कृषि	180	0.3230	बद्धसैन पुत्र कलियान
			निजी	कृषि	182	0.2100	कैलाश चन्द्र, प्रकाश चन्द्र, राय सिंह, रामफल सिंह, गोविन्द सिंह पुत्रगण गंगा सहाय उर्फ गंगाराम, कपूरी देवी पत्नी गंगा सहाय उर्फ गंगाराम
	3. खेडा खुश खबर		निजी	कृषि	2	0.8750	कान्ती प्रसाद, रामगोपाल, जय प्रकाश पुत्रगण वृजलाल, किरन देवी पत्नी स्व० वृजलाल, महेंद्रपाल, राजेन्द्र कुमार पुत्रगण बाबूलाल, वीरवती पत्नी भोलम्बर सिंह
			निजी	कृषि	4	0.2300	अंगूरी देवी पत्नी रोशनलाल
			निजी	कृषि	20	0.6680	राजेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह पुत्रगण ख्याली
			निजी	कृषि	5	0.2300	कन्धी लाल पुत्र रामजी लाल, गौरी शंकर, वीरेश कुमार, राकेश कुमार पुत्रगण देवेन्द्र प्रसाद, हरेन्द्र कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र, ओमलता पत्नी सुभाष चन्द्र, रामजी लाल, देवेन्द्र प्रसाद पुत्रगण जय नारायण
			निजी	कृषि	35	0.1380	अनन्या स्टेट एण्ड फाईनेन्स प्रा.लि.-अख्तर हुसैन पुत्र अब्दुल आलमीन
			निजी	कृषि	37	0.0920	रामबाबू पुत्र प्यारेलाल, अशोक कुमार, अरविन्द कुमार, अजय कुमार पुत्रगण रामशरण, केलाशी देवी पत्नी स्व० रामशरण
			निजी	कृषि	38	0.6910	आविद खां, बाबर खां पुत्रगण अब्दुल सलाम, हनीफ खां, अनीश खां, अब्दुल हमीद खां, आरिफ खां, इरफान खां ना. 15 वर्ष, शाहिद ना. 13 वर्ष पुत्रगण तैय्यब खां संरक्षिका माता हूरन बेगम, हूरन बेगम पत्नी तैय्यब खां, आशिफ खां, आरिफ खां, यासीन खां ना. 17 वर्ष पुत्रगण कत्लू खां संरक्षिका माता नूरजहां बेगम, साबिर खां पुत्र छुट्टन खां, मुन्नी बेगम पत्नी छुट्टन खां, बाबू खां पुत्र अब्दुल्ला खां, महावीर प्रसाद, रामवीर शर्मा, सत्यवीर शर्मा, सुशील कुमार शर्मा पुत्रगण श्रीराम शर्मा
			निजी	कृषि	33	0.3680	दिनेश कुमार पुत्र रामचरण
			निजी	कृषि	32	0.0450	दिनेश कुमार पुत्र रामचरण, प्रभा देवी पत्नी दिनेश कुमार, हमसिनी सिटी होम्स अलीगढ़ प्रा. लि. ऑफिस-अख्तर हुसैन पुत्र आर. आलमीन
			निजी	कृषि	69	0.5070	राजेश कुमार पुत्र राम मूर्ति, अजय कुमार, कौशल कुमार, प्रदीप कुमार पुत्रगण श्रीनिवास, विपिन कुमार, रावल पाराशर नाबालिग पुत्रगण रमेशचन्द्र संरक्षिका माता कमलेश
			निजी	कृषि	64	0.4260	रामफल, रतनलाल पुत्रगण गंगा सहाय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			निजी	कृषि	63	0.4610	अमृता रियल्टी एण्ड डेवलपमेन्ट प्रा.लि., 0-25, खरिया इण्डस्ट्रीज-राजेश कुमार सिंह पुत्र हरीशचन्द्र, केसेल रियल्टी एण्ड फाईनेंस लि. -राजेश कुमार सिंह पुत्र हरीशचन्द्र, ज्वाली सिंह, अमर सिंह पुत्रगण छिदा सिंह, जितेन्द्र सिंह, विमलेश पुत्रगण दुर्गपाल
			निजी	कृषि	117	0.0230	राम प्रसाद पुत्र ननुआ
			निजी	कृषि	54	0.0580	अकिता रियल्टी एण्ड डेवलपमेन्ट प्रा.लि.-निमेष कुमार पुत्र जगदीश भटनागर, अकिता रियल्टी एण्ड डेवलपमेन्ट प्रा.लि.-अख्तर हुसैन पुत्र आर. आलमीन
			निजी	कृषि	136	0.3340	राजेश बाबू पुत्र बनवारी लाल
			निजी	कृषि	132	0.3910	राजेश बाबू पुत्र बनवारी लाल
			निजी	कृषि	135	0.4610	राजेश बाबू पुत्र बनवारी लाल
			निजी	कृषि	127	0.0580	टीकम सिंह, रामेश्वर सिंह पुत्रगण चिरंजीलाल
			निजी	कृषि	126	0.0350	टीकम सिंह, रामेश्वर सिंह पुत्रगण चिरंजीलाल
			निजी	कृषि	138	0.4730	वसन्ती देवी पत्नी यादराम, केदल सिंह, अगद सिंह पुत्रगण बुद्धसेन
			निजी	कृषि	137	0.2300	राजेश बाबू पुत्र बनवारी लाल
			निजी	कृषि	125	0.0180	चन्द्रपाल पुत्र हरिया, ननुआ, डालचन्द्र, बैनीराम, महीपाल सिंह पुत्रगण राम सिंह, रामचन्द्र पुत्र दीपा, आशा देवी पत्नी मेवाराम, शशी देवी पत्नी मुन्नीलाल, राजपाल शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद, वासदेव, बालमुकन्द पुत्रगण जमुना प्रसाद, शेरपाल सिंह, इन्द्रपाल सिंह, रमेश चन्द्र पुत्रगण राम स्वरूप, लक्ष्मी नारायण, कन्हैया लाल, पणू, देवेन्द्र सिंह, सेठी पुत्रगण मिदू सिंह, रामचरण पुत्र दीपचन्द्र
			निजी	कृषि	141	0.6450	निमेषा गर्ग पत्नी पंकज कुमार गर्ग, मिनाश्री अग्रवाल पत्नी दीपक कुमार गर्ग, नीतिका गर्ग पत्नी मनोज कुमार गर्ग, विनीता गर्ग पत्नी स्व० नीरज कुमार गर्ग, लोकेन्द्र पाल सिंह पुत्र राकेश कुमार सिंह, मखमूल पुत्र गफूर, राजवीर सिंह पुत्र नेत्रपाल सिंह, अमर सिंह पुत्र चन्दन सिंह
			निजी	कृषि	140	0.7140	राजवीर सिंह पुत्र नेत्रपाल सिंह
			निजी	कृषि	142	0.1730	हरसरन शर्मा, शिव शर्मा, ललित कुमार शर्मा, गजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्रगण हीरालाल, विरमा देवी पत्नी पन्नालाल, विशन स्वरूप, श्याम बाबू पुत्रगण मोहनलाल, ओमवती पत्नी स्व० मोहनलाल
2	गभाना	1. कौरह रुस्तमपुर	निजी	कृषि	303	0.0230	हरपाल सिंह, प्रेमपाल सिंह, कुशलपाल सिंह, रघुराज सिंह पुत्रगण होडिल सिंह
			निजी	कृषि	304	0.7490	राकेश कुमार, मुकेश कुमार पुत्रगण सूरजपाल सिंह
			निजी	कृषि	305	0.2420	बाबूलाल पुत्र नन्दराम, जुगेन्द्रपाल, राजेन्द्रपाल पुत्रगण केहरी सिंह, कमला देवी पत्नी केहरी सिंह
			निजी	कृषि	322	0.2420	बाबूलाल पुत्र नन्दराम, जुगेन्द्रपाल, राजेन्द्रपाल पुत्रगण केहरी सिंह, कमला देवी पत्नी केहरी सिंह
			निजी	कृषि	323	0.2310	बाबूलाल पुत्र नन्दराम, जुगेन्द्रपाल, राजेन्द्रपाल पुत्रगण केहरी सिंह, कमला देवी पत्नी केहरी सिंह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			निजी	कृषि	324	0.3800	राजेन्द्र सिंह, वीरपाल सिंह, शिवापाल सिंह, दिनेश सिंह पुत्रराज रघुराज सिंह, गजराज सिंह पुत्र मन्खन सिंह, कलावती देवी पत्नी मन्खन सिंह
			निजी	कृषि	325	0.8410	देवराज सिंह, राजकुमार पुत्रगण चन्द्रपाल सिंह, मुकेशपाल सिंह पुत्र स्व० रघुवीर सिंह, धर्मन पुत्र धर्मपाल सिंह, चन्द्रपाल पुत्र सरदार, महेश पाल सिंह पुत्र बाबु सिंह
			निजी	कृषि	329	0.5880	विजयपाल पुत्र शीशपाल
			निजी	कृषि	330	0.6450	धर्मपाल सिंह, महीपाल सिंह पुत्रगण सुम्मेर सिंह, हरेन्द्रपाल सिंह पुत्र महावीर सिंह उर्फ रेशमपाल सिंह, गौरव पुत्र रामपाल सिंह, कुसमा देवी पत्नी रामपाल सिंह
			निजी	कृषि	331	0.2530	रामरती देवी पत्नी रामपाल, विमला देवी पत्नी महावीर प्रसाद, रामअवतार, रामकिशन पुत्रगण ओम प्रकाश, ऊदल सिंह, रोशन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, सुरेशपाल सिंह, सुरजनपाल सिंह पुत्रगण ओंकार सिंह, नरेश कुमार, मुकेशपाल सिंह, कुशलपाल सिंह पुत्रगण जगदीश सिंह, शान्ति देवी पत्नी जगदीश सिंह
			निजी	कृषि	287	0.2760	कायम सिंह पुत्र खूबी सिंह, गोपाली सिंह, मुनेशपाल सिंह, रामेश्वर, भानपाल सिंह पुत्रगण अमर सिंह, कपिल कुमार, दीपक कुमार पुत्रगण प्रेमपाल सिंह, आशा देवी पत्नी स्व० प्रेमपाल सिंह, मनवीर सिंह, टीकमपाल सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्रगण इन्द्रपाल, श्रीपाल सिंह, देवराज सिंह पुत्रगण, मनवीर सिंह, टीकमपाल सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्रगण इन्द्रपाल, श्रीपाल सिंह, देवराज सिंह पुत्रगण कछी सिंह, खचेर सिंह पुत्र छीता
			निजी	कृषि	289	0.0920	कायम सिंह पुत्र खूबी सिंह, गोपाली सिंह, मुनेशपाल सिंह, रामेश्वर, भानपाल सिंह पुत्रगण अमर सिंह, कपिल कुमार, दीपक कुमार पुत्रगण प्रेमपाल सिंह, आशा देवी पत्नी स्व० प्रेमपाल सिंह, मनवीर सिंह, टीकमपाल सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्रगण इन्द्रपाल, श्रीपाल सिंह, देवराज सिंह पुत्रगण, मनवीर सिंह, टीकमपाल सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्रगण इन्द्रपाल, श्रीपाल सिंह, देवराज सिंह पुत्रगण कछी सिंह
			निजी	कृषि	290	0.0180	प्रेमपाल सिंह, राजवीर सिंह, मनवीर सिंह पुत्रगण बहारी सिंह, राजकुमार, विकास कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण श्योवीर सिंह, रामवती पत्नी श्योवीर सिंह
			निजी	कृषि	358	0.9800	कुशमलता पत्नी राजवीर सिंह, कपूरी देवी पत्नी ओमदत्त शर्मा, ज्ञानेन्द्रप्रसाद, प्रेम प्रकाश, लोकेश, भूप्रकाश पुत्रगण ओमदत्त
			निजी	कृषि	359	0.2530	लाल साहब पुत्र होडिल सिंह
			निजी	कृषि	364	0.3800	प्रेमपाल सिंह, सूरजपाल सिंह पुत्रगण मन्खन सिंह, मानवेन्द्र, राजेश, संजय, उदय पुत्रगण रघुराज सिंह, सुरेश कुमारी पत्नी रघुराज सिंह
			निजी	कृषि	363	0.0810	कायम सिंह पुत्र खूबी सिंह, गोपाली सिंह, मुनेशपाल सिंह, रामेश्वर, भानपाल सिंह पुत्रगण अमर सिंह, कपिल कुमार, दीपक कुमार पुत्रगण प्रेमपाल सिंह, आशा देवी पत्नी स्व० प्रेमपाल सिंह, मनवीर सिंह, टीकमपाल सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्रगण इन्द्रपाल, श्रीपाल सिंह, देवराज सिंह पुत्रगण कछी सिंह
			निजी	कृषि	362	0.0920	धर्मपाल सिंह, महीपाल सिंह पुत्रगण सुम्मेर सिंह, हरेन्द्रपाल सिंह पुत्र महावीर सिंह उर्फ रेशमपाल सिंह, गौरव पुत्र रामपाल सिंह, कुसमा देवी पत्नी रामपाल सिंह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			निजी	कृषि	273	0.2150	लौंगश्री देवी पत्नी हरपाल सिंह, प्रेमवती पत्नी खचेरमल, ओमपाल सिंह, भूपेन्द्रपाल सिंह पुत्रगण खेम सिंह, मुकेश कुमार ना. 17 वर्ष पुत्र पप्पू सिंह संरक्षिका माता लज्जावती देवी, लज्जावती देवी पत्नी पप्पू सिंह, खचेर सिंह पुत्र छीता, धर्मपाल सिंह, महीपाल सिंह पुत्रगण सुम्मेर सिंह, हरेन्द्रपाल सिंह पुत्र महावीर सिंह उर्फ रेशमपाल सिंह, गोरव पुत्र रामपाल सिंह, कुसमा देवी पत्नी रामपाल सिंह
			निजी	कृषि	272	0.3390	मल्लिखान सिंह, वीरपाल सिंह पुत्रगण गजाधर सिंह, रामश्री पत्नी स्व० गजाधर सिंह
			निजी	कृषि	498	0.4610	महेन्द्र सिंह, प्रेमपाल सिंह पुत्रगण दीप सिंह
			निजी	कृषि	500	0.5190	धर्मपाल सिंह, महीपाल सिंह पुत्रगण सुम्मेर सिंह, गोरव कुमार पुत्र रामपाल सिंह, कुसमा देवी पत्नी रामपाल सिंह, हरेन्द्रपाल सिंह पुत्र महावीर सिंह उर्फ रेशमपाल सिंह, सुभाष सिंह, बब्बर पुत्रगण महीपाल सिंह, राजरानी पत्नी महीपाल सिंह, भोला सिंह, लक्ष्मीराज सिंह पुत्रगण बुद्धपाल सिंह, योगेन्द्रपाल सिंह, पवन कुमार, बन्टी पुत्रगण राजपाल सिंह
			निजी	कृषि	502	0.0230	राजवीर सिंह पुत्र मंगला
			निजी	कृषि	503	0.7490	रेखा देवी पत्नी ध्यानपाल सिंह, चित्रपाल सिंह पुत्र धनीराम सिंह
			निजी	कृषि	494	0.0120	कृष्ण कुमार सिंह, हरीश कुमार, मुनेश कुमार सिंह, सतीश कुमार सिंह पुत्रगण रघुराज सिंह, प्रेमवती देवी पत्नी रघुराज सिंह
			निजी	कृषि	496	0.3340	लाल साहब, जगदीश प्रसाद, रामगोपाल, राम अवतार, नन्दलाल, रतनलाल पुत्रगण शंकरलाल

[फा. सं. 2010/एलएमएल/12/3-ईस्टर्न कॉरीडोर]

जगदीप राय, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुख सुविधाएं-1)

**MINISTRY OF RAILWAYS****(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th February, 2010

**S.O. 302(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 436(E), dated the 10<sup>th</sup> February, 2009 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Aligarh in the State of Uttar Pradesh;

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily news papers Dainik Jagaran, dated the 6<sup>th</sup> March, 2009 and the Amar Ujala, dated 6<sup>th</sup> March, 2009 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, twelve numbers of objections were received and the same have been considered and disallowed by the competent authority and accordingly orders have been passed;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure, falling within the proposed of Special Railway Project of Eastern Dedicated Freight Corridor in the District Aligarh in the State of Uttar Pradesh.

Sl. No.	Name of the Taluk	Name of the Village	Type of Land	Nature of Land	Gatta Number	Area in Hactares	Name of the land owner / interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kaul	(12) Daultabad	Private	Agriculture	116	0.0740	Ashok kumar s/o Prakash chandra, Amit prakash s/o Chandra shekhar, Rajkumari w/o Ashok kumar, Ramdevi w/o Prakash chandra, Rajesh kumari w/o Chandra shekhar, Chandra shkhar s/o Kalicharan
			Private	Agriculture	115	0.1270	Ashok kumar s/o Prakash chandra, Amit prakash s/o Chandra shekhar, Rajkumari w/o Ashok kumar, Ramdevi w/o Prakash chandra, Rajesh kumari w/o Chandra shekhar, Chandra shkhar s/o Kalicharan
			Private	Agriculture	148	0.1660	Ashok kumar s/o Prakash chandra, Amit prakash s/o Chandra shekhar, Rajkumari w/o Ashok kumar, Ramdevi w/o Prakash chandra, Rajesh kumari w/o Chandra shekhar, Chandra shkhar s/o Kalicharan
			Private	Agriculture	147	0.2300	Ashok kumar s/o Prakash chandra, Amit prakash s/o Chandra shekhar, Rajkumari w/o Ashok kumar, Ramdevi w/o Prakash chandra, Rajesh kumari w/o Chandra shekhar, Chandra shkhar s/o Kalicharan
			Private	Agriculture	152	0.2070	Ashok kumar s/o Prakash chandra, Amit prakash s/o Chandra shekhar, Rajkumari w/o Ashok kumar, Ramdevi w/o Prakash chandra, Rajesh kumari w/o Chandra shekhar, Chandra shkhar s/o Kalicharan
			Private	Agriculture	150	0.0230	Ashok kumar s/o Prakash chandra, Amit prakash s/o Chandra shekhar, Rajkumari w/o Ashok kumar, Ramdevi w/o Prakash chandra, Rajesh kumari w/o Chandra shekhar, Chandra shkhar s/o Kalicharan
			Private	Agriculture	151	0.1040	Ashok kumar s/o Prakash chandra, Amit prakash s/o Chandra shekhar, Rajkumari w/o Ashok kumar, Ramdevi w/o Prakash chandra, Rajesh kumari w/o Chandra shekhar, Chandra shkhar s/o Kalicharan
			Private	Agriculture	153	0.1500	Ashok kumar s/o Prakash chandra, Amit prakash s/o Chandra shekhar, Rajkumari w/o Ashok kumar, Ramdevi w/o Prakash chandra, Rajesh kumari w/o Chandra shekhar, Chandra shkhar s/o Kalicharan



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	154	0.1700	Ashok kumar s/o Prakash chandra, Amit prakash s/o Chandra shekhar, Rajkumari w/o Ashok kumar, Ramdevi w/o Prakash chandra, Rajesh kumari w/o Chandra shekhar, Chandra shkhar s/o Kalicharan
			Private	Agriculture	156	0.0970	Ashok kumar s/o Prakash chandra, Amit prakash s/o Chandra shekhar, Rajkumari w/o Ashok kumar, Ramdevi w/o Prakash chandra, Rajesh kumari w/o Chandra shekhar, Chandra shkhar s/o Kalicharan
			Private	Agriculture	155	0.6640	Ashok kumar s/o Prakash chandra, Amit prakash s/o Chandra shekhar, Rajkumari w/o Ashok kumar, Ramdevi w/o Prakash chandra, Rajesh kumari w/o Chandra shekhar, Chandra shkhar s/o Kalicharan
			Private	Agriculture	149	0.0120	Taradevi w/o Kalicharan, Ashok kumar s/o Prakash chandra, Amit prakash s/o Chandra shekhar, Rajkumari w/o Ashok kumar, Ramdevi w/o Prakash chandra, Rajesh kumari w/o Chandra shekhar, Chandra shkhar s/o Kalicharan
			Private	Agriculture	117	0.2070	Khwaja Mohammad Shahid
			Private	Agriculture	118	0.1450	Khwaja Mohammad Shahid
			Private	Agriculture	145	0.1270	Khwaja Mohammad Shahid
			Private	Agriculture	146	0.0690	Khwaja Mohammad Shahid
			Private	Agriculture	119	0.0230	Khwaja Mohammad Shahid
		(13) Mulla Para Bhujpura	Private	Agriculture	139	0.3000	Rajendra singh s/o Umrao singh, Ramchandra singh s/o Mohan singh
			Private	Agriculture	140	0.0080	Deviram s/o Khumani, Shiv kumar alies Chhotelal, Deepak Min.years 17 s/o Krishna gopal Gur.mother Omwati devi, Omwati devi w/o Krishna gopal, Kailash chandra, Chhotelal, Gandhi s/o Harcharan das, Kamla devi w/o Harcharan das, Durjan singh s/o Deshraj singh, Badami devi w/o Deshraj singh
			Private	Agriculture	149	1.8740	Kishanlal, Vijay kumar s/o Ramswaroop, Pushpa devi w/o Ram swaroop, Tej singh, Heeralal s/o Sona, Chandrapal singh, Gajadhar singh, Vijay kumar, Niranjani singh s/o Ram kishor, Ram devi w/o Bhupali, Sunhara s/o Harpal singh, Jaypal singh s/o Daan sahay, Lalita devi w/o Om prakash
			Private	Agriculture	150	0.6960	Ramchandra singh s/o Mohan singh
			Private	Agriculture	157	0.2490	Heera singh, Ram prasad s/o Mukhram, Ashok, Gopal Min.years 15 s/o Rajpal singh Gur.mother Rumali devi, Rumali devi w/o Rajpal singh
			Private	Agriculture	158	0.0450	Ram swaroop, Brijesh s/o Anta
			Private	Agriculture	159	0.3180	Kunwarpal singh s/o Nannumal, Rajendra, Tara chandra, Gagan s/o Ramcharan, Maya devi w/o Ramcharan
			Private	Agriculture	161	0.4380	Girraj kishor, Lalit kishor, Ram kumar, Pradeep kumar, Anil kumar s/o Babulal, Durgpal singh s/o Virendrapal singh
			Private	Agriculture	162	0.5090	Bharat singh, Mahipal singh, Rajveer singh, Soran singh s/o Munshi singh, Rani devi w/o Narendra singh saini, Chandrakanta devi w/o Chetan singh saini, Deepa devi w/o Jaswant singh saini
			Private	Agriculture	168	0.2100	Hemlata devi w/o Bhola singh
			Private	Agriculture	169	0.3000	Bhikampal singh, Narendrapal singh, Surendrapal singh s/o Ram singh, Durgpal singh s/o Virendrapal singh
			Private	Agriculture	171	0.5240	Rishipal singh, Munnipal singh, Kusumpal singh s/o Ramchandra singh

505 GI/10-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	181	1.4020	Kedarnath saraswat s/o Nityanand saraswat, Satish kumar s/o Satyapal, Amit kumar, Sumit kumar s/o Chandra shekhar, Narendra kumar s/o Ramkishan, Subhash chandra s/o Jagdish prasad, Ramdevi w/o Prakash chandra, Nitin garg s/o Pawan garg, Vijay Maheshwari s/o Ashok kumar maheshwari, Satish chandra garg H.U.F. s/o Prabhulal garg, Manish kumar garg s/o Satish chandra garg, Neel garg s/o Manish kumar garg, Ankur maheshwari s/o Ashok kumar maheshwari
			Private	Agriculture	180	0.3230	Budhsain s/o Kaliyan
			Private	Agriculture	182	0.2100	Kailash chandra, Prakash chandra, Ray singh, Ramphal singh, Gowind singh s/o Ganga sahay alies Gangaram, Kapoori devi w/o Ganga sahay alies Gangaram
		(24) Khera khush Khabar	Private	Agriculture	2	0.8750	Kanti prasad, Ramgopal, Jay prakash s/o Brijlal, Kiran devi w/o Late Brijlal, Mahendra pal, Rajendra kumar s/o Babulal, Veerwati w/o Bholambar singh
			Private	Agriculture	4	0.2300	Angoori devi w/o Roshanlal
			Private	Agriculture	20	0.6680	Rajendra singh, Virendra singh s/o Khyali
			Private	Agriculture	5	0.2300	Kanchhi lal s/o Ramjilal, Gouri shankar, Viresh kumar, Rakesh kumar s/o Devendra prasad, Harendra kumar s/o Subhash chandra, Omlata w/o Subhash chandra, Ramji lal, Devenra prasad s/o Jay narayan
			Private	Agriculture	35	0.1380	Ananya State & Finance PrivateLtd.-Akhtar Husain s/o Abdul Aalmeen
			Private	Agriculture	37	0.0920	Rambabu s/o Pyarelal, Ashok kumar, Arvind kumar, Ajay kumar s/o Ramsharan, Kelashi devi w/o Late Ramsharan
			Private	Agriculture	38	0.6910	Aawid khan, Babar khan s/o Abdul salaam, Haneef khan, Aneesh khan, Abdul hamid khan, Aarif khan, Irfan khan Min.years 15, Shahid Min.years 13 s/o Taiyab khan Gur.mother Huran begum, Huran begum w/o Taiyab khan, Aashif khan, Aarif khan, Yaseen khan Min.years 17 s/o Kallu khan Gur.mother Noorjahan begum, Sabir khan s/o Chhuttan khan, Munni begum w/o Chhuttan khan, Babu khan s/o Abdulla khan, Mahaveer prasad, Ramveer sharma, Satyaveer sharma, Sushil kumar Sharma s/o Shriram sharma
			Private	Agriculture	33	0.3680	Dinesh kumar s/o Ramcharan
			Private	Agriculture	32	0.0450	Dinesh kumar s/o Ramcharan, Prabha devi w/o Dinesh kumar, Hamsini City Homes Aligarh PrivateLtd.office-Akhtar Husain s/o R. Aalmeen
			Private	Agriculture	69	0.5070	Rajesh kumar s/o Ram moorti, Ajay kumar, Koushal kumar, Pradeep kumar s/o Shriniwas, Vipin kumar, Rawal parashar Miner s/o Ramesh chandra Gur.mother Kamlesh
			Private	Agriculture	64	0.4260	Ramphal, Ratanlal s/o Ganga sahay
			Private	Agriculture	63	0.4610	Amrita Riyalti & Development PrivateLtd., 0-25 Khariya Industries-Rajesh kumar singh s/o Harish chandra, Kerolieriyalti & Finance Ltd.Vilard House 2nd Floor-Rak- Rajesh kumar singh s/o Harish chandra, Jwali singh, Amar singh s/o Chhidda singh, Jitendra singh, Vimlesh s/o Durgpal
			Private	Agriculture	117	0.0230	Ram prasad s/o Nanua
			Private	Agriculture	54	0.0580	Ankita Riyalti & Development PrivateLtd.-Nimish kumar s/o Jagdish Bhatnagar, Ankita Riyalti & Development PrivateLtd.-Akhtar Husain s/o R. Aalmeen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	136	0.3340	Rajesh babu s/o Banwari lai
			Private	Agriculture	132	0.3910	Rajesh babu s/o Banwari lai
			Private	Agriculture	135	0.4610	Rajesh babu s/o Banwari lai
			Private	Agriculture	127	0.0580	Teekam singh, Rameshwar singh s/o Chiranji lai
			Private	Agriculture	126	0.0350	Teekam singh, Rameshwar singh s/o Chiranji lai
			Private	Agriculture	138	0.4730	Basanti devi w/o yaadram, Kedai singh, Angad singh s/o Budhsen
			Private	Agriculture	137	0.2300	Rajesh babu s/o Banwari lai
			Private	Agriculture	125	0.0180	Chandrapal s/o Hariya, Nanua, Daal chandra, Bainiram, Mahipal singh s/o Ram singh, Ram chandra s/o Deepa, Asha devi w/o Mewaram, Shashi devi w/o Munnilal, Rajpal sharma, Jagannath prasad, Vasdev, Balmukand s/o Jamuna prasad, Sherpal singh, Indrapal singh, Ramesh chandra s/o Ram swaroop, Lamxi narayan, Kanhaiya lai, Pappu, Devendra singh, Sethi s/o Mitthu singh, Ramcharan s/o Deep chandra
			Private	Agriculture	141	0.6450	Nimisha garg w/o Pankaj kumar garg, Minakshi agrawal w/o Deepak kumar garg, Neetika garg w/o Manoj kumar garg, Vineeta garg w/o Late Neeraj kumar garg, Lokenda pal singh s/o Rakesh kumar singh, Makhmool s/o Gafoor, Rajveer singh s/o Netrapal singh, Amar singh s/o Chandan singh
			Private	Agriculture	140	0.7140	Rajveer singh s/o Netrapal singh
			Private	Agriculture	142	0.1730	Harsaran sharma, Shiv sharma, Lalit kumar sharma, Gajendra kumar sharma s/o Heeralal, Virma devi w/o Panna lai, Vishan swaroop, Shyam babu s/o Mohanlal, Omwati w/o Late Mohanlal
2	Gabhana	(2) Kaurah Rustampur	Private	Agriculture	303	0.0230	Harpal singh, Prempal singh, Kushalpal singh, Raghuraj singh s/o Hodil singh
			Private	Agriculture	304	0.7490	Rakesh kumar, Mukesh kumar s/o Surajpal singh
			Private	Agriculture	305	0.2420	Babulal s/o Nandram, Jugendrapal, Rajendrapal s/o Kehri singh, Kamla devi w/o Kehri singh
			Private	Agriculture	322	0.2420	Babulal s/o Nandram, Jugendrapal, Rajendrapal s/o Kehri singh, Kamla devi w/o Kehri singh
			Private	Agriculture	323	0.2310	Babulal s/o Nandram, Jugendrapal, Rajendrapal s/o Kehri singh, Kamla devi w/o Kehri singh
			Private	Agriculture	324	0.3600	Rajendra singh, Veerpal singh, Shishpal singh, Dinesh singh s/o Raghuraj singh, Gajadhar singh s/o Makkhan singh, Kalawati devi w/o Makkhan singh
			Private	Agriculture	325	0.8410	Devraaj singh, Rajkumar s/o Chandrapal singh, Mukeshpal singh s/o Late Raghuvir singh, Dharmendra s/o Dharmal singh, Chandrapal s/o Sardar, Mahesh Pal shingh s/o Babu singh
			Private	Agriculture	329	0.5880	Vijaypal s/o Shishpal
			Private	Agriculture	330	0.6450	Dharmal singh, Mahipal singh s/o Summer singh, Harendrapal singh s/o Mahaveer singh alies Reshampal singh, Gourav s/o Rampal singh, Kusma devi w/o Rampal singh
			Private	Agriculture	331	0.2530	Ramrati devi w/o Rampal, Vimla devi w/o Mahaveer prasad, Ram avtar, Ram kishan s/o Om prakash, Udai singh, Roshan singh, Mahendrapal singh, Sureshpal singh, Suranjapal singh s/o Onkar singh, Naresh kumar, Mukeshpal singh, Kushalpal singh s/o Jagdish singh, Shanti devi w/o Jagdish singh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	287	0.2760	Kayam singh s/o Khubi singh, Gopali singh, Muneshpal singh, Rameshwar, Bhanpal singh s/o Amar singh, Kapil kumar, Deepak kumar s/o Prempal singh, Asha devi w/o Late Prempal singh, Manveer singh, Teekampal singh, Gajendra singh s/o Indrapal, Shripal singh, Manveer singh, Teekampal singh, Gajendra singh s/o Indrapal, Shripal singh, Devraaj singh s/o Kanchhi singh, Khcher singh s/o Chhita
			Private	Agriculture	289	0.0920	Kayam singh s/o Khubi singh, Gopali singh, Muneshpal singh, Rameshwar, Bhanpal singh s/o Amar singh, Kapil kumar, Deepak kumar s/o Prempal singh, Asha devi w/o Late Prempal singh, Manveer singh, Teekampal singh, Gajendra singh s/o Indrapal, Shripal singh, Manveer singh, Teekampal singh, Gajendra singh s/o Indrapal, Shripal singh, Devraaj singh s/o Kanchhi singh
			Private	Agriculture	290	0.0180	Prempal singh, Rajveer singh, Manveer singh s/o Bahori singh, Rajkumar, Vikas kumar, Devendra kumar s/o Shyoveer singh, Ramwati w/o Shyoveer singh
			Private	Agriculture	358	0.9800	Kushamlata w/o Rajveer singh, Kapoori devi w/o Omdutt sharma, Gyanendra Prasad, Prem prakash, Lokesh, Bhu prakash s/o Om dutt
			Private	Agriculture	359	0.2530	Lal sahan s/o Hodil singh
			Private	Agriculture	364	0.3800	Prempal singh, Surajpal singh s/o Makkhan singh, Manvendra, Rajesh, Sanjay, Uday s/o Raghuraj singh, Suresh kumari w/o Raghuraj singh
			Private	Agriculture	363	0.0810	Kayam singh s/o Khubi singh, Gopali singh, Muneshpal singh, Rameshwar, Bhanpal singh s/o Amar singh, Kapil kumar, Deepak kumar s/o Prempal singh, Asha devi w/o Late Prempal singh, Manveer singh, Teekampal singh, Gajendra singh s/o Indrapal, Shripal singh, Devraaj singh s/o Kanchhi singh
			Private	Agriculture	362	0.0920	Dharpal singh, Mahipal singh s/o Summer singh, Harendrapal singh s/o Mahaveer singh alias Reshampal singh, Gourav s/o Rampal singh, Kusma devi w/o Rampal singh
			Private	Agriculture	273	0.2150	Loungshri devi w/o Harpal singh, Premwati w/o Khachermal, Ompal singh, Bhupendrapal singh s/o Khem singh, Mukesh kumar Min. years 17 s/o Pappu singh Gur.mother Lajjawati devi, Lajjawati devi w/o Pappu singh, Khcher singh s/o Chhita, Dharpal singh, Mahipal singh s/o Summer singh, Harendrapal singh s/o Mahaveer singh alias Reshampal singh, Gourav s/o Rampal singh, Kusma devi w/o Rampal singh
			Private	Agriculture	272	0.3390	Malikhan singh, Veerpal singh s/o Gajadhar singh, Ramshri w/o Late Gajadhar singh
			Private	Agriculture	498	0.4610	Mahendra singh, Prempal singh s/o Deep singh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	500	0.5190	Dharmpal singh, Mahipal singh s/o Summer singh, Gourav kumar s/o Rampal singh, Kusma devi w/o Rampal singh, Harendrapal singh s/o Mahaveer singh alies Reshampal singh, Subhash singh, Bablu s/o Mahipal singh, Rajrani w/o Mahipal singh, Bhola singh, Laxmiraj singh s/o Budhpal singh, Yogendrapal singh, Pawan kumar, Banti s/o Rajpal singh
			Private	Agriculture	502	0.0230	Rajveer singh s/o Mangia
			Private	Agriculture	503	0.7490	Rekha devi w/o Dhyanal singh, Chitrapal singh s/o Dhaniram singh
			Private	Agriculture	494	0.0120	Krishna kumar singh, Harish kumar, Munesh kumar singh, Satish kumar singh s/o Raghuraj singh, Premwati devi s/o Raghuraj singh
			Private	Agriculture	496	0.3340	Lai sahab, Jagdish prasad, Ram gopal, Ram avtar, Nand lai, Ratan lai s/o Shankar lai

[F. No. 2010/LML/12/3-Eastern Corridor]

JAGDIP RAI, Executive Director (Land and Amenities-1)

505 GZ/10-4